

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 447]

भोपाल, रविवार, दिनांक 8 नवम्बर 2015—कार्तिक 17, शक 1937

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश  
मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन  
17, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर, 2015

फा. क्र. 84 (12)-2015-चार-उप चुनाव-9744.—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के उप नियम 11(2) के अनुसरण में, 24-रतलाम (अ.ज.जा.) संसदीय एवं 171-देवास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची सर्वसाधारण के सूचनार्थ निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है.

एस. एस. बंसल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

प्ररूप-7 क

[नियम 10 (1) देखिये]

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची  
24-रतलाम (अ.ज.जा.) निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिये उप निर्वाचन

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक (चुनाव चिन्ह)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी








1. कान्तिलाल भूरिया

म.क्र. 86, ग्राम मोरडूंडिया  
तह. राणापुर,  
जिला झाबुआ (म. प्र.)

इंडियन नेशनल  
काँग्रेस



हाथ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	निर्मला-दिलीपसिंह भूरिया	ग्राम-पोस्ट माछलिया, तहसील व जिला झाबुआ	भारतीय जनता पार्टी	 कमल
<b>( ii ) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी ( मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न )</b>				
3.	कसनसिंह चौहान	ग्राम भीमकुंड, पोस्ट भीमकुंड, तह. थांदला, जिला झाबुआ	राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी	 कप और प्लेट
4.	कैलाश वसुनिया	56, ग्राम जूनापानी, पो. दत्तीगांव, तह. सरदारपुर, जिला धार ( म.प्र. )	बहुजन मुक्ति पार्टी	 चारपाई
5.	जालम सिंह पटेल	ग्राम वलवई, पो. वलवई, तह. सौण्डवा, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश 457887	समता समाधान पार्टी	 बिजली का खंभा
6.	विजय हारी	ग्राम-केसरपुरा, पो.-देवली, तह.-बाजना, जिला-रतलाम ( म.प्र. )	जनता दल (यूनायटेड)	 तीर
<b>( iii ) अन्य अभ्यर्थी</b>				
7.	जोसफ रामसिंह	ग्राम पंचायत नवापाड़ा नवीन पोस्ट भगोर, तह. व जिला झाबुआ	निर्दलीय	 ऑटो-रिक्शा
8.	पवनसिंह डोडियार	3, कमला नेहरू मार्ग सैलाना, जिला रतलाम, पिन 457550	निर्दलीय	 चक्की

हस्ता./-

**( डॉ. अरुणा गुप्ता )**

रिटर्निंग आफिसर,

24-रतलाम ( अ.ज.जा. ) संसदीय निर्वाचन.

स्थान : झाबुआ

दिनांक : 07-11-2015.

FORM 7A  
[See Rule 10(1)]



Conduct of Election Rules, 1961

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Bye Election to the House of People from the 24-Ratlam (ST) Constituency



Sl. No. (1)	Name of Candidate (2)	Address of Candidate (3)	Party affiliation (4)	Symbol allotted (5)
----------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------

(i) Candidates of Recognised National and State Political Parties

1	Kantilal Bhuria	House No. 86, Mordundiya, Teh. Ranapur, District Jhabua (M.P.).	Indian National Congress		Hand
2	Nirmala Dileepsingh Bhuriya	Village and Post Machhaliya, Tehsil and District Jhabua.	Bharatiya Janata Party		Lotus

(ii) Candidates of Registered Political Parties (Other than Recognised National and State Political Parties)

3	Kasan Singh Chouhan	Village Bhimkund, Post Bhimkund, Teh. Thandla, District Jhabua	Rashtriya Krantikari Samajwadi Party		Cup & Saucer
4	Kailash Vasuniya	56, Village Junapani, P.O. Dattigaon, Teh. Sardarpur, District Dhar (M.P.)	Bahujan Mukti Party		Cot
5	Jalam Singh Patel	Village Valvai, P.O. Valvai, Teh. Sondwa, District Alirajpur (M.P.) 457887	Samata Samadhan Party		Electric Pole
6	Vijay Hari	Village Kesarpura, P.O. Devli, Teh. Bajna, District Ratlam (M.P.)	Janata Dal (United)		Arrow

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>(iii) Other Candidates</b>				
7	Joseph Ramasingh	Village Panchayat Navapada Navin Post Bhagor Teh. and District -Jhabua	Independent	 Auto-Rickshaw
8	Pawansing Dodiyar	3, Kamla Nehru Marg, Sailana, Distt. Ratlam, Pin 457550	Independent	 Chakki

Place : Jhabua  
Date : 07-11-2015

Sd./-  
(DR. ARUNA GUPTA)  
Returning Officer,  
24-Ratlam (ST)  
Parliamentary Constituency.

प्ररूप-7 क



[नियम 10 (1) देखिये]



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

**निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची**  
171-देवास निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिये उप निर्वाचन

क्रम संख्यांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी का पता (3)	*दल सहबद्धता (4)	आवंटित प्रतीक (5)
----------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------

**( i ) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी**

1.	गायत्री राजे पवार	आनंद भवन पैलेस, ए. बी. रोड, देवास (म. प्र.)	भारतीय जनता पार्टी	 कमल
2.	जयप्रकाश शास्त्री	109, कवि कालिदास मार्ग (लक्ष्मीबाई मार्ग), देवास (म. प्र.)	इंडियन नेशनल काँग्रेस	 हाथ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>( ii ) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी ( मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न )</b>				
3.	सन्नी सिंह कँवर	190, श्रीनगर मेन, इंदौर (म. प्र.)	द इम्पेरियल पार्टी ऑफ इण्डिया	 ऑटो-रिक्शा
4.	हाजी हातम भाई (दरबार)	135, जयप्रकाश मार्ग, देवास (म. प्र.)	समाजवादी पार्टी	 साइकिल

हस्ता./-

स्थान-कलेक्टर न्यायालयीन कक्ष देवास  
दिनांक : 07-11-2015

( रजनीश कसेरा )  
रिटर्निंग आफिसर  
171-देवास विधान सभा क्षेत्र.

\*उपरोक्त प्रवर्ग (i) और प्रवर्ग (ii) के अधीन उल्लिखित अभ्यर्थियों की दशा में लागू।

कृपया ध्यान दें :—उपरोक्त स्तंभ 1 के अधीन सभी तीन प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की क्रम संख्या क्रमवार होगी न कि प्रत्येक प्रवर्ग के लिए पृथकतया।

FORM 7A  
[See Rule 10(1)]



**Conduct of Election Rules, 1961**



**LIST OF CONTESTING CANDIDATES**

**Bye Election to the Legislative Assembly from the 171-Dewas Constituency**

Sl. No. (1)	Name of Candidate (2)	Address of Candidate (3)	*Party affiliation (4)	Symbol allotted (5)
----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------

**(i) Candidates of Recognised National and State Political Parties**

1	Gayatri Raje Puar	Anand Bhawan Palace, A.B. Road, Dewas (M.P.)	Bharatiya Janata Party	 Lotus
2	Jai Prakash Shastri	109, Kavi Kalidas Marg, (Laxmibai Marg) Dewas (M.P.)	Indian National Congress	 Hand

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>(ii) Candidates of Registered Political Parties (Other than Recognised National and State Political Parties)</b>				
3	Sunny Singh Kanwar	190, Shree Nagar Main, Indore (M.P.)	The Imperial Party of India	 Auto-Rickshaw
4	Haji Hatam Bhai (Darbar)	135, Jai Prakash Marg, Dewas (M.P.)	Samajwadi Party	 Bicycle

Place : Collector Court Room Dewas  
Date : 07-11-2015

Sd./-  
(RAJNEESH KASERA)  
Returning Officer,  
171-Dewas, Legislative Assembly  
Constituency.

\*Applicable in the case of candidates mentioned under categories (i) and (ii) above.

N.B.—Under Col. 1 above, the serial numbers of candidates of all the three categories shall be given consecutively and not separately for each category.